

क्रम-संख्या - 21

नम्बर-एस०एस०पी० / एत

० - 91 / 2014 - 16

पाँस्ट एँट कन्सेशनल रेट



रजिस्ट्रेशन

डबल० / एन०पी

लाइसेन्स टू

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 28 जनवरी, 2022

माघ 8, 1943 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

No. 576/EXIT/2022/SDR/VOL. I

Dated : 28th January, 2022

NOTIFICATION

WHEREAS, the Election Commission has announced the schedule for the General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh vide Press Note No. ECI/PN/3/2022 dated 8th January, 2022 and Press Note No. ECI/PN/9/2022 dated 17th January, 2022.

AND WHEREAS, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) specifies that "(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely :-

(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories:

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7:00 A.M. on 10th February, 2022 (Thursday) and 6:30 PM on 7th March, 2022 (Monday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or

publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid General Elections, shall be prohibited.

It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in the respective polling areas in connection with General elections.

By order,
ASHWANI KUMAR MOHAL,
Secretary.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary, Election.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशांत क राड,
नई दिल्ली - 110001

संख्या : 576/एजिट/2022/एस.डी.आर./खण्ड-1 दिनांक : 28 जनवरी ,
2022

अधिसूचना

1 - यतः , निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 8 जनवरी , 2022 के पक्ष नाट सं 0 ईसीआई / पीएन / 3 / 2022 तथा पक्ष नाट सं 0 ईसीआई / पीएन / 9 / 2022 दिनांक 17 जनवरी , 2022 के माध्यम से गाँवा , मणिपुर , पंजाब , उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है ।

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में आरपी अधिनियम , 1951) की धारा 126 के अंतर्गत यह निर्दिष्ट किया गया है कि ' (1) कांई भागी व्यक्ति कांई निर्गम मत सवेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सवेक्षण के परिणाम का , ऐसी अवधि के दौरान जा निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए , प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा ।

(2) निर्वाचन आयोग , उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए , निम्नलिखित का ध्यान में रखते

हुए साधारण आदेश द्वारा तारीखा आर समय अधिसूचित करेगा, अर्थात् : -

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन का मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ होने तक होगी और सभी राज्यों में आरंभ होने तक जारी रह सकेगी :

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन का मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ होने तक होगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दंडाधिकार की हानि करेगी या जुर्माने से या दंडनीय होगा ।

अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनांक 10 फरवरी, 2022 (गुरुवार) को पूर्वाह्न 7.00 बजे और दिनांक 7 मार्च, 2022 (सोमवार) को अपराह्न 06 : 30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपयुक्त साधारण निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा ।

4. इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणाम सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा ।

आदेश से,
अश्वनी कुमार मोहल,
सचिव ।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव, निर्वाचन।

पी 0 एस 0 य ू 0 पी 0 - ए 0 पी 0 5 9 1
राजपत्र - 2 0 2 2 - (1 3 1 6) - 5 9 9 + 5 0 = 6 4 9
प, तियाँ - (क म प्य ू ट र / ट ी 0 / अ ा ँ फ स े ट) ।